

प्रेस नोट दिनांक-16.08.2022

(1). आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज दिनांक-16.08.2022 को पुलिस लाइन जनपद चित्रकूट में श्री जी स्कूल से प्रारम्भ होकर मुख्य प्रवेश द्वार से आर0 आई0 कार्यालय तक 2.5 किमी की पुलिस मैराथन दौड़ का शुभारम्भ अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय जनपद चित्रकूट द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया जिसमें 32 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मैराथन दौड़ के प्रथम 05 विजेताओं को प्रतिस्तर निरीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया। तत्पश्चात पुलिस लाइन के में आवासित पुलिस परिवार के बच्चों की 2.5 किमी की मैराथन दौड़ करायी गई तथा प्रथम 04 विजेताओं को प्रतिस्तर निरीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया।

(2). आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु कर्वी शहर में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

(3). आज दिनांक 16.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री दुर्गेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में उप0 नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सूरज निषाद पुत्र श्याम कुमार निवासी दहिनी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा व 01 अदद 315 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में मु0अ0स0 102/022 में आर्म्स एक्ट की धारा 03/25 में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी

01अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद 315 बोर कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना भरतकूप
- 2.आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह गौर
- 3.आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह

(5). आज दिनांक-16.08.2022 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के आदेश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बैंको की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा, अलार्म को चेक किया गया। बैंक सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों एवं सुरक्षा गार्ड को सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। शाखा प्रभारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। सुरक्षा व्यवस्था हेतु संदिग्ध व्यक्तियों एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण इत्यादि की सघन चेकिंग की गयी।

(6). आज दिनांक-16.08.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव एवं यातायात पुलिस द्वारा ट्राफिक चौराहा/बस स्टैण्ड पर वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड, हाई सिक््योरिटी नम्बर प्लेट, ओवरस्पीड वाहनों, तीन सवारी की चेकिंग की गयी। यातायात प्रभारी द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन, हेडफोन का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों को हिदायत दी गयी कि भविष्य में वाहन चलते समय कभी भी मोबाइल फोन, हेडफोन का प्रयोग न करें। वाहन धीमी गति से सतर्कता पूर्वक चलाए। टैम्पों चालकों को निर्देश दिये गये कि अवैध रूप से सड़क पर पार्किंग न करें। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोड, हाई सिक््योरिटी नम्बर प्लेट न लगाए, दो पहिया वाहन में 03 सवारी, टैम्पों/रिक्शा में ओवरलोड सवारी पाए गए वाहनों का पेण्डिंग ई-चालान किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में जानकारी देकर नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

(7). शहीद स्मारक पर पीएसी बैंड पार्टी द्वारा राष्ट्रीय धुनों का वादन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेंद्र कुमार राय की उपस्थिति में पीएसी बैंड पार्टी द्वारा राष्ट्रीय धुनों का वादन कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, उ0नि0 एपी श्री आफाक खां एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।